

पुरुष नर्स के पद के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में पूर्ण रूप से लोकम आधार (तदर्थ आधार) पर पुरुष नर्स के पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. निम्नवत अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक 19.03.2022 तक ई-मेल आईडी rect2018@nfc.gov.in पर भेज सकते हैं।

i)	अर्हता	12वीं और एक मान्यता प्राप्त अस्पताल में कार्य करने के न्यूनतम एक वर्ष के अनुभव के साथ किसी केंद्रीय/राज्य नर्सिंग परिषद से ए-ग्रेड नर्स के रूप में पंजीकरण सहित नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा (03 वर्षों का पाठ्यक्रम) अथवा एक मान्यता प्राप्त अस्पताल में कार्य करने के न्यूनतम एक वर्ष के अनुभव के साथ किसी केंद्रीय/राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स के रूप में पंजीकरण सहित बी.एससी (नर्सिंग) अथवा अस्पताल में 03 वर्षों के अनुभव के साथ नर्सिंग "ए" प्रमाण-पत्र अथवा न्यूनतम एक वर्ष के अनुभव के साथ सशस्त्र सेना से नर्सिंग सहायक श्रेणी-III एवं उससे ऊपर नोट : आईसीसीयू/शल्य चिकित्सा थिएटर/कोविड इयूटी का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर का मूल ज्ञान आवश्यक है क्योंकि नर्स को कंप्यूटर प्रणाली में रोगियों के विवरण को दर्ज करना पड़ेगा।
ii)	आयु	दिनांक 19.03.2022 को 40 वर्ष से अधिक न हो

3. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नवत शर्तों पर होगी:-

- नियुक्ति छुट्टी की रिक्ति जब कभी उत्पन्न हो पर पूर्णतः लोकम/तदर्थ आधार पर की जाएगी।
- परिलब्धियां : रु. 24,234/- + महंगाई भत्ता (नर्स/ए के लिए स्वीकार्य पूर्व-संशोधित) (लगभग रु. 43000/- प्रति माह).
- नियुक्ति एक समय में 89 दिनों से अधिक और 02 अवधियों में कुल 178 दिनों से अधिक नहीं होगी।

4. चयन दिनांक 23.03.2022 को निर्धारित वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को दिनांक 19.03.2022 तक या उससे पूर्व ई-मेल आईडी rect2018@nfc.gov.in पर अग्रिम रूप से प्रेषित करें।

5. अभ्यर्थियों को संलग्न प्रपत्र में विधिवत भरे हुए आवेदन के साथ दिनांक 23.03.2022 प्रातः 0900 बजे संजीविनी के विपरीत ईसीआईएल फैक्टरी के निकट, ईसीआईएल एक्स रोड, हैदराबाद में वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट करना अपेक्षित है। अभ्यर्थियों को अर्हता एवं अनुभव की प्रतियों के 02 सेटों के साथ सत्यापन के लिए सभी मूल प्रमाण-पत्रों को ले आना भी अपेक्षित है।

6. अभ्यर्थियों के चयन पैनल की सूचना एनएफसी के वेबसाइट www.nfc.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी।